



Ref: SEC/SE/2024-25
Date: July 11, 2024

Corporate Relations Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

BSE Scrip Code: 500096

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block, Bandra – Kurla Complex
Bandra (E) Mumbai – 400 051.

NSE Scrip Symbol: DABUR

Sub: Newspaper Publication – Information to Shareholders regarding dispatch of Integrated Annual Report 2023-24, Annual General Meeting and e-voting

Dear Sir/Madam,

Further to our letter dated July 10, 2024 regarding submission of Integrated Annual Report 2023-24 including Notice of Annual General Meeting (AGM) and Business Responsibility and Sustainability Report for the financial year 2023-24 and in accordance with relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Companies Act, 2013, we are pleased to enclose a copy each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated July 11, 2024 in which notice containing, inter-alia, information regarding dispatch of Annual Report and e-voting facility for the AGM scheduled to be held on August 8, 2024 have been published.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully
For **DABUR INDIA LIMITED**


(A K Jain)
EVP (Finance) & Company Secretary

Encl: as above

IN TALKS WITH FOUR LARGE COMPANIES FOR INDIA INVESTMENTS

100X.VC looks to aid Japanese, HK firms' early-stage funding

S SHANTHI
Bengaluru, July 10

INVESTMENT FIRM 100X.VC is in talks with four large firms from Japan and Hong Kong looking to invest in early-stage startups in India.

This will be part of its corporate venture capital (CVC) initiative launched in August 2021, under which it partners with large domestic and international firms keen on early-stage investments, and helps them make the right investment decisions.

Panasonic and Piddite Ventures are two such corporations that have so far tied up with 100X.VC. Piddite, notably, has done investments around \$9 million in around six startups through this partnership.

"More and more corporates today want to get involved in early-stage investment ecosystem. Many Singapore and

FOSTERING STARTUPS

This will be part of 100X.VC's CVC initiative, under which it helps domestic & international firms make right investment decisions

Panasonic and Piddite Ventures have so far tied up with 100X.VC



YAGNESH SANGHRAIKA, FOUNDER & CFO
MANY GLOBAL FIRMS WANT TO INVEST, BUT THEY FIND IT TOUGH TO SET UP A TEAM. THIS IS WHERE WE HELP THEM.

Japanese corporate funds also want to invest. However, they find it very difficult to set up a whole team here and evaluate the deals. This is where we help

Tech firms like Intel, Google, Microsoft & Meta have been investing in startups via (corporate venture capital) CVC funds

The CVC programme helps corporates raise their profits by striking right deals with startups and helps them identify acquisition targets

According to 100X.VC, the top 100 corporations in India have kept aside around \$10-100 crore of capital to invest in startups.

However, besides a few, most corporates have been investing in growth or late-stage startups only as they come with less risks.

ACVC funds is a vehicle used by large companies to invest in new-age companies. Globally, many leading tech companies such as Intel, Google, Microsoft, and Meta have been investing in startups through their CVC funds. In India, too, corporates such as Infosys, Wipro and late-stage startups such as Zerodha and Dream11 have been actively investing in startups.

According to 100X.VC, the top 100 corporations in India have kept aside around \$10-100 crore of capital to invest in startups.

However, besides a few, most corporates have been investing in growth or late-stage startups only as they come with less risks.

This is where 100X.VC bridges the gap, by helping these corporates find the right early-stage investments. 100X.VC has so far invested in over 150 early-

stage startups. Some of its portfolio companies include Data Sutram, Zepto and Beyond Snacks. Last month, the Mumbai-based VC firm, founded in 2019, invested \$2.7 million in 17 startups as part of its 11th cohort.

The firm, however, doesn't co-invest with corporates that it partners with under its CVC initiative. Additionally, the firm's CVC vertical and the VC verticals function independently. The CVC programme mainly helps corporates increase their profits by striking the right deals with startups and helps them identify acquisition targets.

"We also want to ensure that there is no conflict of interest. We won't take up assignments from companies in similar industries, which can turn out to be, at some level, some conflict of interest," he added.

Zepto says system glitch caused price disparities

FACING BACKLASH AFTER

contender was listed at an exorbitant price of ₹131 for 100 grams on its platform, quick commerce giant Zepto said that the company is going ahead with the proposed demerger of its businesses that will lead to formation of six firms and unlocking of massive value.

The company has received approvals from the majority of its creditors for a proposed demerger of businesses, marking an important step in the company's plan to split into six independent listed companies.

Addressing shareholders during the 38th Annual General Meeting, the Chairman said, "We are going ahead with the demerger of our businesses, which will lead to the creation of six strong companies, each a Vedanta in its own right. This will unlock massive value."

As we stand on the brink of an amazing transformation, our job is high," Agarwal said, adding, "the demerger will speed to our journey." Each entity will have more independence with regard to capital

Proposed split of Vedanta entities on track: Agarwal

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, July 10

VEDANTA CHAIRMAN ANIL Agarwal Wednesday said that the company is going ahead with the proposed demerger of its businesses that will lead to formation of six firms and unlocking of massive value.

The company has received approvals from the majority of its creditors for a proposed demerger of businesses, marking an important step in the company's plan to split into six independent listed companies.

Addressing shareholders during the 38th Annual General Meeting, the Chairman said, "We are going ahead with the demerger of our businesses, which will lead to the creation of six strong companies, each a Vedanta in its own right. This will unlock massive value."

As we stand on the brink of an amazing transformation, our job is high," Agarwal said, adding, "the demerger will speed to our journey." Each entity will have more independence with regard to capital

THE DEMERGER WILL LEAD TO CREATION OF SIX STRONG FIRMS, EACH A VEDANTA IN ITS OWN RIGHT. THIS WILL UNLOCK MASSIVE VALUE

ANIL AGARWAL, CHAIRMAN, VEDANTA



allocation and their growth strategies, the chairman said and added that investors will have the freedom to invest in the industries of their choice, broadening the overall investment base for Vedanta assets. "For every one share of Vedanta Ltd that shareholders currently own, they will additionally receive one share of each of the five newly listed firms," he said.

IG to team up with India influencers

PRIVANX VERMA
Seoul, July 10

IG IS CONSIDERING collaborating with Indian digital influencers in the future for sharing "optimistic content" on its online platforms for social media users, company executives told reporters here on Wednesday.

The collaboration is expected to help IG reach out to more social media users in India, as it would help them proactively engage with "positive and inspiring content" on their feeds, said an executive with IG's Brand Management Division. In May 2024, IG had launched a global campaign called "Optimism your feed" for the same purpose. The executive said that IG is "passionate supporter of optimism." The firm aims to create positive changes in people's lives by being intentional with our positive activities both online and in real world. So far, IG has uploaded over 20 short videos on TikTok, YouTube and other platforms, in collaboration with several "global influencers" to share optimistic content. The company at present has teamed up with influencers, such as Tina Choi, Victoria Browne, and Josh Harmon among others.

(The writer was in Seoul at the invitation of LG India)

Centralised exchange by Aug: Cifdaq

PADINI DHIRUVARAJ
Bengaluru, July 10

CIFDAQ, A NEW-AGE fintech company, has unveiled plans to launch its centralised exchange in August. Sanjay Saxena, CEO and co-founder of the company, told FE. This launch aims to provide a platform for trading top crypto currencies and introduce a suite of other financial products.

"Three years of technological development have laid a strong foundation for us, and now, with the right team and resources, we are ready to roll out our central exchange," Saxena said.

The same has led to creation of over 17,800 direct jobs, the statement added. The same assumes significance as through PLI in the

Cifdaq's exchange will initially support trading for the top 20 crypto currencies paired with the Indian Rupee (INR), with plans to expand to include derivatives and options trading. Further, the company plans to launch an android app and the exchange will also be supported on the website.

"Our exchange will feature OTC, Instant, P2P Transactions, and we're exploring the addition of options trading in the near future... Nobody in India has offered the options," Saxena said.

Despite India's cautious stance on cryptocurrencies, Cifdaq remains optimistic

THREE YEARS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT HAVE LAID A STRONG FOUNDATION FOR US, AND NOW, WITH THE RIGHT TEAM AND RESOURCES, WE ARE READY TO ROLL OUT OUR CENTRAL EXCHANGE

SANJAY SAXENA, CEO AND CO-FOUNDER, CIFDAQ

about its potential in the Indian market. "Cryptocurrency is not banned in India. We are aligning with government regulations and focusing on integrating blockchain technology to support the formal economy," Saxena added.

Further, beyond the centralised exchange, Cifdaq plans to introduce a native token with a total supply of 500 million, an MPC (multi-party computation) wallet with



enhanced security features, and other blockchain-based services by the end of 2025. "Our aim is to create a comprehensive blockchain ecosystem, providing everything from our own layer 1 blockchain to a suite of financial services," Saxena said.

Cifdaq is currently entering a fundraising phase, targeting a total of \$25 million in the next 12-15 months to support its team and marketing efforts.

"This funding will also support the development of our upcoming products, including a decentralised exchange, custodial services, NFTs, and a gaming platform," said Saxena.

Telecom PLI: Equipment sales cross ₹50,000 crore in 3 years

THE TELECOM EQUIPMENT sales has crossed the \$50,000 mark, with exports totalling around \$10,500 crore in three years of the production-linked incentive (PLI) scheme, the department of telecommunications (DoT) has said in a statement.

The same has led to creation of over 17,800 direct jobs, the statement added. The same assumes significance as through PLI in the

telecom sector, the government aims to promote local production and reduce import dependency.

The government said the sales of telecom & networking products by PLI benefited companies in FY24 has increased by 370% compared to the last year of FY20. By encouraging local production, the PLI scheme has significantly reduced the country's reliance on

imported telecom equipment, resulting in import substitution of 60% and reduced import dependency. The government said the sales of telecom & networking products by PLI benefited companies in FY24 has increased by 370% compared to the last year of FY20. By encouraging local production, the PLI scheme has significantly reduced the country's reliance on

imported telecom equipment, resulting in import substitution of 60% and reduced import dependency. The government said the sales of telecom & networking products by PLI benefited companies in FY24 has increased by 370% compared to the last year of FY20. By encouraging local production, the PLI scheme has significantly reduced the country's reliance on

DHANUKA AGRITECH LIMITED

Registered & Corporate Office: Global Gateway Towers, 60 Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram-122 002 | Phone No.: 0124-4345000
Email: investors@dhankaltd.com | Website: www.dhankaltd.com

Notice of 38th Annual General Meeting, Remote E-Voting, Book Closure and Record Date for the purpose of Final Dividend for the FY 2023-24

Annual General Meeting
Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, 2nd August 2024 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") to transact the business as set out in the Notice. In accordance with General Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, 20/2020 dated 05th May, 2020 and latest being 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Creators"), SEBI/Circulars/CFR/2023/187 dated October 7, 2023 read with earlier circulars in this regard (collectively referred to as "SEBI Creators"), Companies are allowed to hold AGM through VC, without the physical presence of Members. The AGM shall be held on the subject matter. The Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

In compliance with the circulars, electronic copies of Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2023-24, have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) ("DP"). These documents are also available on the website of the Company at www.dhankaltd.com and Website of the Stock Exchange viz. BSE, Ltd. ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com respectively on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.nsdl.com. The dispatch of Notice of AGM through Emails has been completed on 10th July, 2024.

Remote E-Voting
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before AGM as well as e-Voting during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

- The detailed instructions for remote e-Voting and e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:
- The remote e-Voting facility will be available during the following period:
[Commencement of remote e-Voting: Tuesday, 30th July, 2024 (IST 9:00 a.m.)]
[End of Remote e-Voting: Thursday, 1st August, 2024 (IST 5:00 p.m.)]
 - The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voter ID holders and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
 - The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 26th July, 2024 (Cut-Off Date). The facility of e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting.
 - A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as at the Cut-Off Date shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before AGM and e-Voting during the AGM.
 - Any person who acquires shares or the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-ID and password for remote e-Voting by sending a request to Senior Manager, Ms. Pallavi Mishra, Office of NSDL at evoting@nsdl.com or call toll free no. 022-4886 7000.
 - Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically but shall not be entitled to vote at the Meeting.
- Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login Type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at evoting@csdl.com or contact at toll free no. 1800 22 5533

Book Closure & Record Date for the purpose of Final Dividend and AGM
Pursuant to the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Friday, July 19, 2024 as the Record Date for determining entitlement of Members to the Final Dividend for the Financial Year Ended March 31, 2024. Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 20th July, 2024 to Friday, 2nd August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 38th Annual General Meeting of the Company.

For Dhanku Agritech Limited
Sd/-
Jitin Saxena
Place: Gurugram
Dated: 10.07.2024
Company Secretary and Compliance Officer
FC3-7812

Kothari Sugars and Chemicals Ltd
Regd. office: "Kothari Buildings", No. 115, Mahatma Gandhi Salai, Nungambalam, Chennai - 600 034
CIN: L15421TN1999PL0004310
Phone No.: 044-35225527 / 35225528
Email: secretary@kothari.com | www.kothari.com

NOTICE (FOR ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY)

Sub: Transfer of equity shares of the company relating to unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given to those shareholders who have not claimed / encashed their dividend since the dividend declaration year 2017-18 and the same has remained unclaimed for a period of seven consecutive years. Pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013, as amended from time to time read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the equity shares in respect of which dividends have remained unclaimed by the shareholders of the past seven consecutive years, are mandated to be transferred by the Company to the Demat account of the Investor Education and Protection Fund Authority established by the Central Government. Accordingly, the shares of all shareholders who have not claimed their dividend since the dividend declaration year 2017-18 are liable to be transferred to IEPF.

In this regard, individual notices and reminders have already been sent to all the concerned shareholders at their latest address available with the Company and the details of such shareholders have also been displayed on the website of the Company i.e. www.kothari.com. All concerned shareholders are hereby requested again to claim their shares and unclaimed dividend amount(s) on or before the last date i.e. October 13, 2024 by making an application to the Company in writing. Any claim made after the above-mentioned date shall not be considered valid and will not be taken on record. Please also note that no claim shall lie against the Company or its Registrar and Share Transfer Agent in respect of individual amount, shares and other benefits accruing thereon, so transferred to the IEPF. The shareholders can however, claim their unclaimed dividend & shares already transferred to IEPF by following the procedure stipulated in the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. For further information / clarification on the subject matter, you may contact the undersigned by sending an e-mail at secretary@kothari.com or reach our Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Cameo Corporate Services Limited, Unit: Kothari Sugars and Chemicals Limited, Subramanian Building, 5th Floor, No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Phone: 044-40027070 / 40027074 & 40020723, e-mail: investor@cameoindia.com. Online Investor Portal: <https://wisdom.cameoindia.com>

Place : Chennai
Date : 11.07.2024
R.Prasath
Company Secretary

Kothari Petrochemicals Limited
Regd. Office: "Kothari Buildings", 115, Mahatma Gandhi Salai, Nungambalam, Chennai - 600 034
CIN: L11017TN1999PL001734
Phone No.: 044-35225527/35225528
Email: secretary@kothari.com | www.kothari.com

NOTICE (FOR ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY)

Sub: Transfer of equity shares of the company relating to unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given to those shareholders who have not claimed / encashed their dividend since the dividend declaration year 2017-18 and the same has remained unclaimed for a period of seven consecutive years. Pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013, as amended from time to time read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the equity shares in respect of which dividends have remained unclaimed by the shareholders of the past seven consecutive years, are mandated to be transferred by the Company to the Demat account of the Investor Education and Protection Fund Authority established by the Central Government. Accordingly, the shares of all shareholders who have not claimed their dividend since the dividend declaration year 2017-18 are liable to be transferred to IEPF.

In this regard, individual notices and reminders have already been sent to all the concerned shareholders at their latest address available with the Company and the details of such shareholders have also been displayed on the website of the Company i.e. www.kothari.com. All concerned shareholders are hereby requested again to claim their shares and unclaimed dividend amount(s) on or before the last date i.e. October 12, 2024 by making an application to the Company in writing. Any claim made after the above-mentioned date shall not be considered valid and will not be taken on record. Please also note that no claim shall lie against the Company or its Registrar and Share Transfer Agent in respect of individual amount, shares and other benefits accruing thereon, so transferred to the IEPF. The shareholders can however, claim their unclaimed dividend & shares already transferred to IEPF by following the procedure stipulated in the IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. For further information / clarification on the subject matter, you may contact the undersigned by sending an e-mail at secretary@kothari.com or reach our Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Cameo Corporate Services Limited, Unit: Kothari Petrochemicals Limited, Subramanian Building, 5th Floor, No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Phone: 044-40027070 / 40027074 & 40020723, e-mail: investor@cameoindia.com. Online Investor Portal: <https://wisdom.cameoindia.com>

Place : Chennai
Date : 11.07.2024
K. Priya
Company Secretary

